


बच्चा के काणे बाइबल
परस्तुति



सरग परमात्मा
को एक रूपेलो
घर छे



लिखबा हालो: Edward Hughes

व्याख्या करबा हालो: Lazarus

रूपान्तर करबा हालो: Sarah S.

अनुवाद करबा हालो: Bro. Warrington E. Lal


परस्तुत करबा हालो: Bible for Children
www.M1914.org

©2017 Bible for Children, Inc.


लाइसेन्स – थे या कहाणियां की फोटू कापी अर
छापाई को काम करवा सको छो पण एक शरत
छे कि इके ताई बेचेगा कोइने ।



जदे यीक्षु इ धरती प रह रियो छे त उने
आपणा चेला चांटियां न सरग
का बारा खी छी । उन
उके ताई म्हारा बाप
को घर बतायो ।



અર સ્ત્રી ક વઠી ઘણી બડી બડી હવેલિયા
છે । અર વઠી સૈદી હવેલિયા ઘણી
બડી બડી અર ઘણી રૂપેહલી
રેવે છે । ઇ ધરતી કા
ઘરા સૂં ઘણી બડી
અર રૂપેલી છે ।



यीक्षु न खी ख मूं थांके कारणे यक ठांव
तियार करबा जा रियो छूं । मूं पाछो आउंगो
अर थाके ताई म्हारी
लारा ले
जाउंगो ।




पाछो जीवतो होबा सू पहली तूं सरग चल्यो गयो
जद उंका चेला उपर आडी टकटकी लगार
झांकरिया छा अतरा म यक
बादल ...



... न आर उके ताई वांकी आरिख्यां के सामे
उठार बादला म ढाक लियो ।



जब सूं ही ईसाई
लोग परमात्मा
की बाता न याद
करे छे ।



परमात्मा के सामे
हाजर




यीक्षु ने खी के तूं बेगो ही पाछो आवेगो जस्या
व उम्मीद रखाणे छ पण वां ईसाईयान को
काई होवेगो जे म्हारा आबा सू
पेहली मरग्या छा बाईबल
कहवे छ क वे सीधा ही
यीक्षु सूं जारर मल
जावेगा ।

परमात्मा के सामे
हाजर




वां को डील न
रहवेगो पण वांकी
आत्मा परमात्मा
के सामे हाजर
रहवेगी ।



परमात्मा के सामे
हाजर




बाईबल की आखरी कताब प्रकाशितवाक्य म्हाने
अचरज भरया सरग की बेई बतावे छे ।




अर अचरज की बात या छ क सरग एक
अनोखो घर छे । परमात्मा हर कठी वास करे


छे पण उको राज
सिगांसन
सरग म
छे ।




सैंदा देवदूत अर
सरग वासी सरग में
परमात्मा का भजन
कीर्तन करे छे ।




अस्या ही जे परमात्मा का मनख
छे अर जे मरी न सरग मे
जावेगा वे सैदा क सैदा
परमात्मा की प्रार्थना म
वठे नाला
तरीका सूं
भजन
गावेगा ।




जे गीत वूं गावे छे वामे सूं
यक गीत अर्या छे । थां
सर्वद्वित्तमान छे, परमात्मा
की आडी सूं थांने म्हा के
ताई मुक्ती
दिलायी ।



सैदा देक्षा अर जातियां के
कारणे लोहू बहार म्हाने
म्हाका परमात्मा के खातर
राजो और पुजारी
बणायो ।




बाईबल का आखरी पन्ना में मंडयो छे क
सरग यक नया यरूद्लेम क जरूया छे यो
चाहरो ओरा सूं घणी बडी अर उंची




उंची भीता
सूं धिरियो
छे ।



યા भीતાં સફાટ ચમકવા હાલા માંટા સૂં બળી
છે અર યાં भीतां की नेव चमचम करवा हला
नगा अर घणा कीमती मांटा अर जेवराता सूं
ढांक मेली छे ।



अर सैदा बाहरे का दरवाजा मोतियां सूं बणा
मेलिया छे ।




અર યો મોતિયાં કો દરવાજો કઠી મી બંદ ન
હોવે છે । ચાલો મીતર ચાલાં અર દેખા ... વાહ
સરગ મીતર સૂં
ઘણો સ્થપ
કો છે ।




यो सहर पूरो के पूरो कांच की नाई चोखो सुना
सूं बणयो छे । इ का गेला भी सुना का
बणिया छे ।




परमात्मा का सिंगासन सूं यक जीवन देबा हाली
साफ सुथरी पाणी की नन्दी बह री छे इ नन्दी
के दोई आडी जीवन देबा हाला दरख लाग्या
छे जे पेहली पेहल अदन का बाग मे उंगाया
ग्या छ।




यह दरख घणा न्यारा छे या मे बाहरा महिना
बाहर तरां का फल लागे छे अर यांका जीवन
दायक पता मनखियां की दवा दारू के काम
आवे छे ।




सरग मे सूरज अर चांद का परकास की जरूरत
कोने छे अठी परमात्मा का न्यारा रूप सूं ही
उजालो हो जावे छे अठी कधी भी रात न होवे
छे ।




અર અઠી કા જનાવર મી ન્યારા હી છે । સૈંદા
પાલ્યા જાનવર ઇક દુજા કા માઈલા માઈલી
જૈસ્યા રેવે છે । તેન્દુઓ અર ગાડરિયા કા
બચ્ચા લાંરા લાંરા ઘાસ ચરે છે ।



बब्बर ढोर, बैल की नाई चारो चरे छे परमात्मा
कहवे छे यां म सूं कोई भी म्हारा पवित्र पर्वत
के ताई दुखी करेगो अर न ही कधी नाक्ष
करेगो ।



अर जरुयां ही म्हाने चारो आडी देखियो तो
जाणयो क अठी सूं कंई चीज
गायब छे ।



कडो शबद वठी कोने छो आपणा सवारथ का
कारणे कोई वठी लडे
कोइने छा ।



दरवाजा मे ताला कोइने वठी चोट्टा रह ही
कोयने वठी झूठ मनख, हत्यारा, जादूगर, अर न
ही वठी कोई

दुबलो
पातलो
मनख
छो ।



वठी सरग में कस्यो भी पाप कोयने छो ।






जद म्हा सरग में
परमात्मा के लारा छा
आख्यां म सूं आंसू
ढलके ही कोयने ।
आपणा कस्टा क कारणे
कधी कधी मनख
आपणी जीवण जेवडी
क कारण रोबा लाग
जावे तो परमात्मा उंका
आसूं पूछ डालेगो ।




सरग मे मरत्यु कोइने होवे छे । परमात्मा का
मनख सदा उंके लांरा रेवेगा ।




अठी न कष्ट छे न कधी चिल्लाबो पडे, न दरद
न कोई बेमारी न जुदाई न मौत मरण होवेगी ।


अठी हर मनख
परमात्मा के
लारां सरग
में राजी
खुदी सूं
रहवेगा ।




સબસૂ બઢિયા સરગ વાં છોરા
છોરિયા ક કારણે છે જે પરમ્
ચીદુ કે તાઈ આપણો મુક્તી
દાતો માને છે અર ઉકે ઉપરે
બસવાસ રાખે
છે અર ઁને
પરમાત્મા
કી જૈસ્યા
માને છે ।



સરગ મે ઇક કતાબ રખ મેલી
છે જિકો નામ જીવન કી પુસ્તક
છે । જે સૈદા મનરખ્યા કા નામા
સૂં ભરી પડી છે ।




थां जाणो छो ख उमें खिका
खिका नाम मण्डरिया छे । उं
कताब मे वां मनखियां का
नाम लिखियां जे यीक्षु पण
बसवास करे छे ।
कांई थांको
नाम उमे छे ?



बाईबल को आखरी अक्सर जे सरग के बारे
मे छे वू अचरज को निमन्त्रण छे ।



આત્મા ઓર લાડી કહવે છે આ જે સૂળે છે તસે
મી કહ છે આ જે તસાયો છે ત મી આઓ અર
તકે તાઈ જલ બના પીસા કે લેબા દયો ।



सरग परमात्मा को यक रूपेलो घर छे
बाइबल सूं परमात्मा की वाणी में कहाणी
मे पायो गियो

यूहन्ना 14, 2 कुरिन्थियो 5,
प्रकाशितवाक्य 4, 21, 22

“जे आपणा जीवन में उजालो करे छे ।”

भजन 119:130



स्वतम



बाईबल की या कहाणी आपणे तांइ
बतरावे छै क परमात्मा जिने आपणे तांइ बणायो,
वू चावे छै क आपण उके तांइ जाणा ।

परमात्मा जाणे छै क जे जे गुनाह अर गलत काम
आपण करां छा उने वू पाप माने छै अर पापा री सजा
मौत छै । परमात्मा आपण सू अतरो प्रेम करे छै कि उने
आपणो एकलो बेटो यीक्षु मसीह न इ दनियां में खंदायों
क उ सूली पर चढर आपणा पापा री सजा भुगते । यीक्षु
मरबा बाद पाछो जीवतो होय गयो अर सरग में अपणा
घर माई जार बैठ ग्यों । जद थे यीक्षु परभू पै बसवास
करो अर आपणा पापा री छमा उसे मांगो त वू थांकी
अरज सूणी न थांके मायने रहवेगो अर
थे भी उके लारां सदा बणियां रहोगा ।



यदि थांने या बसवास छै क या बाता

सैदी सांची छै तो परमात्मा सू या बात रखे :

प्यारा यीक्षु मने बसवास छै क थे ही परमात्मा छो अर मनख बणी ने इ धरती माइने अवतार लेई न पधारिया, थाने म्हारा पापा रा खातर आपणी मौत री सजा भुगती अर थे पाछे जिन्दा होई गया अब मूं थांसू अरज करू छू क थे म्हारी जीवण जेवडी मई आर म्हारा पापा न छमा करो ताकि म्हने नवो जीवण मल सके अर मूं हमेसा हमेसा थांके लारा लारा चाल संकू । परभू यीक्षु म्हारी मदद करो क म्हं थारी सैदी आज्ञा न मान सकूं अर थारी संतान बणी न थारे करणे जी सकूं । आमीन

बाईबल पढो अर रोजाना परमात्मा सूं

बातां करो । यूहना 3:16

